

“I want to speak English fluently.”

क्या आपने कभी इस **sentence** का **use** किया है। बिलकुल किया होगा क्योंकि **English** को धाराप्रवाह बोलना बहुत ही जरूरी है। अब इस वाक्य में बोलना **speak** कैसा चाहते हैं - धाराप्रवाह - **fluently**. तो यह शब्द (**fluently**) यह बता रहा है कि हम या कोई व्यक्ति कैसा (**how**) बोलना चाहता है। **speak** क्रिया है और **fluently** क्रिया के विषय में अधिक जानकारी दे रहा है, उसे **modify** कर रहा है, इसलिए **fluently** क्रिया विशेषण यानी **adverb** हुआ।

अब इसी वाक्य को बिना **fluently** लगाए बोलते हैं -

“I want to speak English.”

इस वाक्य से यह तो पता चल रहा है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ पर किस तरह यह पता नहीं चलता। इसलिए हमें वाक्य में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए **adverbs** के प्रयोग की जरूरत पड़ती है। अब आपको एक **idea** मिल गया होगा कि **adverbs spoken** इंग्लिश और **written** इंग्लिश के लिए कितना **important** हैं।

दो बातें जो हम हमेशा से adverbs के बारे में जानते हैं, वे हैं -

- 1) **adverbs** क्रिया की विशेषता बताते हैं
- 2) सारे **ly** वाले शब्द **adverbs** होते हैं

आज इस **class** में हम यह जानेंगे कि **adverbs** सिर्फ क्रिया की ही विशेषता नहीं बताते और दिन में ना जाने कितनी बार हम **adverbs** का प्रयोग करते हैं और उनमें से बहुत से शब्दों के बाद **ly** भी नहीं लगता।

क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह (उपवाक्य) होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। (**Adverbs are the words or a clause (a group of words) that show the quality of verb/adjective/another adverb or provide some additional information about them.** जैसे -

1) Rabbits run fast. (खरगोश तेज भागते हैं।)

‘**fast**’ शब्द का प्रयोग करने से दौड़ने के बारे कुछ अधिक जानकारी मिलती है की **rabbits** किस तरह दौड़ते हैं। दौड़ना (**run**) एक **verb** है इसलिए **fast adverb** होगा जो की एक क्रिया की विशेषता बता रहा है।

2) He is a very good boy. (वो बहुत अच्छा लड़का है।)

ये कहना कि “वो बहुत अच्छा लड़का है।” यहाँ “अच्छा होना” **He (Pronoun)** की विशेषता है। यहाँ **good adjective** है क्योंकि वह **He (pronoun)** की विशेषता बता रहा है। पर जब हम कहते हैं - ‘**very good** (बहुत अच्छा)’ तो ‘**very**’

यहाँ पर 'good' की भी विशेषता बताता है। 'good' एक विशेषण है इसलिए 'very' एक **adverb** होगा। इसलिए **adjectives** की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी **adverbs** कहते हैं।

3) Rabbits run very fast. (खरगोश बहुत तेज़ दौड़ते हैं।)

'fast' एक **adverb** है क्योंकि यह एक क्रिया (run) के बारे में बता रहा है। 'very' लगाने से 'fast' के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी मिलती है इसलिए 'very' भी यहाँ एक **adverb** (क्रिया विशेषण) है। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरह एक **adverb** दूसरे **adverb** की भी विशेषता बता रहा है।

4) Ram runs fast, which is good for us. (राम तेज़ दौड़ता है, जो हमारे लिए अच्छा है।)

यहाँ पर ये कहना कि "which is good for us" (जो हमारे लिए अच्छा है) उसके तेज़ दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है इसलिए "which is good for us" एक **adverb clause** है।

Adverbs वाक्य में अलग अलग तरह से प्रयोग किये जाते हैं। वाक्य में उनका क्या उद्देश्य है, इसके अनुसार उनके अलग अलग भागों में बांटा गया है। आइए **adverbs** के **types** सीखें **examples** के साथ -

Types of Adverb (क्रिया विशेषण के प्रकार)

1. Adverbs of Time
2. Adverbs of Frequency
3. Adverbs of Place
4. Adverbs of Manner
5. Adverbs of Degree or Quantity
6. Adverbs of Reason

Adverbs of Time (when is the action performed?)

May I go home now? (क्या मैं अब घर जा सकता हूँ?)

Aarti will be back from work soon. (जल्द ही आरती काम से वापस आ जाएगी।)

He came yesterday. (वह कल आया था।)

We will go to a movie tonight. (हम आज रात फिल्म के लिए जाएंगे।)

He arrived late for work. (वह काम के लिए लेट से पहुंचा।)

जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि हमारा जो सोचना है कि सिर्फ **ly** वाले शब्द ही **adverbs** होते हैं, गलत है। ऊपर दिए हुए वाक्यों को ध्यान से देखिये। **now, soon, yesterday, tonight, late** ये सभी शब्द किसी न किस शब्द के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। इन शब्दों का हम लगभग रोजाना प्रयोग करते हैं पर यह नहीं जानते कि ये सभी शब्द **adverbs** हैं। ऐसे **adverbs** जो **verb** द्वारा किये जाने वाले कार्य के समय से सम्बंधित जानकारी देते हैं उन्हें **adverbs of time** कहते हैं। (**Adverbs of Time tell us something about the time that something happens.**) ये सभी शब्द **"when?"** का उत्तर देते हैं। अन्य शब्दों में कार्य कब हुआ, यह बताते हैं।

May I go home now? घर कब जाना है - **When? - NOW**

Aarti will be back from work soon. आरती काम से कब वापिस आयेगी? **When? - SOON**

He came yesterday. (वह कब आया? - **When? - YESTERDAY**)

We will go to a movie tonight. (हम कब फिल्म के लिए जाएंगे? - **When? - TONIGHT**)

He arrived late for work. (वह काम के लिए कब पहुंचा। - **When? - LATE**)

तो अब बोलते सकी ध्यान रखें कि ये सभी शब्द भी **adverbs** हैं।

Adverbs of Frequency (how frequently is the action performed?)

अब इन वाक्यों को देखिये

My grandparents visit us frequently. (मेरे दादा-दादी अक्सर हमसे मिलने आते हैं।)

I go to the park often. (मैं अक्सर पार्क में जाता हूँ।)

She practices the violin regularly. (वह नियमित रूप से वायलिन का अभ्यास करती है।)

इन सभी वाक्यों में **frequently, often** और **regularly** यह बता रहे हैं कि कार्य कितनी बार हो रहा है। ऐसे शब्द या **adverbs** जो ये बताये कि कितनी बार (**How frequently**) **verb** (क्रिया) के द्वारा काम किया गया है, उन्हें **adverb of frequency** कहते हैं। ऐसे **adverbs "how often?"** का उत्तर देते हैं।

Frequency → Adverbs of Frequency → Example

100% **always** **I always go to the mall.** (मैं हमेशा मॉल जाता हूँ। **always** - हमेशा)

90% **usually** **I usually go to the mall.** (मैं आमतौर पर मॉल जाता हूँ। **usually** -

अक्सर)

80%	normally / generally	I normally go to the mall. (मैं आम तौर पर मॉल जाता हूँ। normally - अक्सर/ आम तौर पर)
70%	often/ frequently	I often go to the mall. (मैं अक्सर मॉल जाता हूँ। often - अक्सर)
50%	sometimes	I sometimes go to the mall. (मैं कभी-कभी मॉल जाता हूँ। sometimes - कभी-कभी)
30%	occasionally	I occasionally go to the mall. (मैं कभी-कभी मॉल जाता हूँ। occasionally - कभी-कभी लेकिन कम)
10%	seldom	I seldom go to the mall. (मैं शायद ही कभी मॉल जाता हूँ। seldom - शायद ही कभी)
5%	hardly ever / rarely	I hardly ever go to the mall. (मैं शायद ही कभी मॉल जाता हूँ। hardly ever - शायद ही कभी लगभग ना के बराबर)
0%	never	I never go to the mall. (मैं मॉल कभी नहीं जाता हूँ। never - कभी नहीं)

कुछ examples देखिए

The sales director gets new e-mail **hourly**. (बिक्री निदेशक को प्रति घंटा एक नया ई-मेल मिलता है।)

Payroll must be done **every three weeks**. (पेरोल हर तीन सप्ताह में किया जाना चाहिए। **Payroll** - कुल वेतन भुगतान)

I **always** remember to do my projects. (मुझे हमेशा मेरे प्रोजेक्ट्स करना याद रहता है।)

He **normally** gets good marks in quarterly exams. (वह आमतौर पर त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है।)

The employees are **always** working until seven. (कर्मचारी हमेशा सात बजे तक काम कर रहे हैं।)

Adverbs of Place (where is the action performed?)

इस **Adverb** से पता चलता है कि काम कहाँ (किस जगह) हुआ या होना है। (**Adverbs of Place tell us the place where something happens.**) They answer the question "where?" जैसे -

When an adverb describes where an activity was done, it is known as the adverb of place.

Come **here**.

Go **there**.

यहाँ "here" और "there" का उपयोग come तथा go के साथ किया गया है और ये इस बात की जानकारी देता है कि कहाँ आना या जाना है।

कुछ और **examples** देखिए -

The lady went **inside** her house. औरत घर के अंदर गयी। (Where did the lady go? - inside)

They looked **everywhere**. उन्होंने सब जगह देखा। (Where did they look? - everywhere)

Two cars were parked **outside**. दो कारण बाहर खड़ी थी। (Where were two cars parked? - outside)

इन सभी वाक्यों में **inside, everywhere, outside** कार्य कहाँ, किस जगह (**where**) हो रहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए ये सभी **Adverbs of Place** हैं।

Adverbs of Manner - (How is the action performed?)

Adverb of manner से काम किस प्रकार हुआ, इस बात की जानकारी मिलती है (**How is the action performed?**) इनमें अधिकतर शब्द **ly** वाले होते हैं जैसे -

He speaks **slowly**. वह धीरे बात करता है। (How does he speak? - slowly)

Her uncle is **seriously** ill. मेरे अंकल गंभीर रूप से बीमार है। (How ill is he? - seriously)

They helped us **cheerfully**. उन्होंने खुशी से हमारी मदद की। (How did they help us? - cheerfully)

The soldiers fought the war **bravely**. सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। (How did the soldiers fight? - bravely)

Ram works **hard**. राम कड़ी मेहनत करता है। (How does Ram work? - hard)

ये सभी **words (slowly, seriously, cheerfully, bravely, hard)** क्रिया (**speaks, ill, helped, fought, works**) के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कि कार्य किस तरह से है।

Adverbs of Degree or Quantity (How much is the action performed?)

Adverb of degree या **quantity** मात्रा की जानकारी मिलती है कि कार्य कितना हुआ है। ये कई बार दूसरे **adverb** के बारे में बताता है। जैसे -

I am **fully prepared for the exam.** (मैं परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।)

I work **very hard.** (मैं कड़ी मेहनत करता हूँ।)

इन दोनों वाक्यों में ही **fully** और **very** क्रमशः **prepared (verb)** और **hard (adverb)** के बारे में बता रहे हैं।

Adverbs of Degree सामान्यतः "how much?" या "to what degree?" का उत्तर देते हैं और **verbs, adjectives** और दूसरे **adverbs** को **modify** करते हैं। कुछ और **examples** के द्वारा इसे समझते हैं -

She **entirely agrees with him.** वह पूरी तरह से उससे सहमत है। (**How much does she agree with him?**)

- **entirely** - पूरी तरह से)

entirely क्रिया (**verb**) **agrees** के बारे में बता रहा है।

Mary is **very beautiful.** मैरी बहुत सुन्दर है। (**How beautiful is Mary? - very - बहुत**)

very (adverb) एक विशेषण (**beautiful**) के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है।

He drove **quite dangerously.** वह काफी हद तक खतरनाक तरीके से ड्राइव करता था। (**To what degree did he drive dangerously? - quite - काफी हद तक**)

quite एक अन्य **adverb dangerously** को **modify** कर रहा है।

Adverbs of Degree or Quantity का प्रयोग सामान्यतः **verb, adjective** या दूसरे **adverbs**, जिनके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं, उनसे पहले किया जाता है। **More examples-**

It is a **bit chilly outside.** बाहर थोड़ी ठंडक है।

This room is **sufficiently big.** यह कमरा पर्याप्त रूप से बड़ा है।

Her dress is **pretty expensive.** उसकी ड्रेस काफी महंगी है।

She looked **rather nice yesterday.** वह विशेष करके कल अच्छी लग रही थी।

Manish **really loves reading books.** मनीष को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है।

She is **extremely beautiful.** वह बेहद खूबसूरत है।

Shikha is **immensely talented.** शिखा बहुत अधिक प्रतिभाशाली हैं।

Adverbs of Reason (Why?)

Adverb of reason से कारण को बताता है। जैसे -

There was a huge protest. The government **therefore** passed the bill. (भारी विरोध हुआ। इसलिए सरकार ने विधेयक पारित किया।)

यह **"therefore"** उस कारण को **point out** कर रहा यही जिसके कारण विधेयक पास हुआ। अन्य शब्दों में **"therefore"** **pass** करने की वजह के बारे में जानकारी देता है।

ऐसे **adverbs** कोई क्रिया क्यों हुई (**why' an action takes place**) का उत्तर देते हैं -

She didn't go to school **because it was raining**. (वह स्कूल नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी।)

He did not study, **therefore he failed his exams**. (उन्होंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वह अपनी परीक्षा में फेल हो गया।)

Sudha is ill, **hence she will not come today**. (सुधा बीमार है, इसलिए वह आज नहीं आएगी।)

The lights stopped working, **thus the match was cancelled**. (लाइट्स ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए मैच रद्द कर दिया गया।)

Adverb को उपयोग कैसे करते हैं? (Important for Exam purpose)

Adverb के बारे में तो जान लिया पर वाक्य में इनका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, यह जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि गलत जगह पर इसका प्रयोग वाक्य के अर्थ को बदल देता है। आइए वाक्य में इनका सही प्रयोग सीखें और ये गलती हम बोलते समय या लिखते समय न दोहराए -

1) Adverb जिस शब्द की विशेषता बताता है और उस **adverb** को पास से पास रखना चाहिए क्योंकि वाक्य में **adverb** की स्थिति के अनुसार वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे...

I have often thought of going to my grandparent's house.

(यहाँ **often** का प्रयोग **thought** के साथ किया गया है। **Often** से पता चलता है कि मैं कितनी बार सोचता हूँ।)

I have thought of going often to my grandparent's house.

(यहाँ **often** का प्रयोग **going** के साथ किया गया है। यहाँ पर पता चलता है कि मैं कितनी बार जाना चाहता हूँ।)

2) **Intransitive verb** की विशेषता प्रकट करने वाला **adverb** सामान्य रूप से उस **verb** के बाद आता है.

My friend lives here.

She speaks fluently.

3) **Adverbs of time**, जैसे **always, never, ever, often, seldom, sometimes** और **irregularly** उन **verbs** के

पहले आता है जिनका बारे में वे बात कर रहे हैं -

I always go to school on time.

She never speaks a lie.

but, ये **adverbs** को **to be verb** के बाद प्रयुक्त किया जाता है -

He is always cheerful.

4) जब किसी **transitive verb** के बाद उसका **object** (कर्म) हो तब **adverb object** (कर्म) के बाद आता है -

He performed his duty carefully.

5) जब किसी वाक्य में **verb** के साथ उसका कोई **auxiliary verb** जुड़ा हो तब उस **verb** की विशेषता बताने वाले

adverb प्रायः **auxiliary verb** और **main verb** के बीच प्रयुक्त होता है.

I have always told him to work hard.

He does not know my address.

Position of Adverbs

1) Adverbs that come after

यदि वाक्य में **object** मौजूद है, तो **adverb of manner, adverb of time** और **adverb of place** उसके बाद

लगाया जाता है अन्यथा उस **adverb** को क्रिया के बाद लगाया जाता है.

He dances well.

She is sitting quietly.

I looked everywhere for my friends.

2) Order of multiple adverbs - एक से अधिक adverbs का क्रम

When 2 or more adverbs are used in together in the after position, their normal order is...

(1) Adverb of manner, (2) Adverb of place, and (3) Adverb of time.

जैसे -

He performed sincerely in the concert tonight.

इस वाक्य में **adverbs** प्रयोग हुआ है **sincerely - Adverb of manner, tonight - Adverb of place**

3) Adverbs that come before - Adverbs जो पहले आते हैं

Adverb of frequency को साधारण तौर पर क्रिया के पहले लगाया जाता है।

He rarely dances.

I usually sleep by nine.

यदि क्रिया एक शब्द का है तब यह **adverb** कर्ता और क्रिया के बीच में रखा जाता है और यदि क्रिया एक से अधिक

शब्द का हो तब इस **adverb** को क्रिया के पहले शब्द के बाद रखा जाता है जैसे -

He is rarely seen at the parties.

He was always going to school by bus.

She is never late for school.

4) Adverb that modifies another adverb -

जब कोई **adverb** किसी अन्य **adverb** की विशेषता बताता है, तब उसे उस दूसरे **adverb** के पहले रखा जाता है जैसे

-

The house is very nice.

Do not speak so fast.

5) General rule for the adverb - only -

only को साधारण तौर उस शब्द के तुरंत पहले रखा जाता है जिसे बारे में वह कुछ अधिक जानकारी देता हो।

I studied only at nights.

I only studied at nights.

He has worked only for three hours.

He has only worked for three hours.

6) General rule for the adverb - enough

enough को साधारण तौर उस शब्द के बाद रखा जाता है बारे में वह कुछ अधिक जानकारी देता हो।

Work fast enough to complete the work on time.

Practise enough to master the new art.

Please make sure the box is big enough.

तो उम्मीद है कि अब **adverbs** आपको अच्छी तरह से **clear** हो गए होंगे और अब आप इसमें **confuse** नहीं होंगे।

याद रखिए **adverbs** वाक्य में कहाँ लगाया जा रहा है यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। **Adverbs** का प्रयोग

Spoken और **Written English** में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। इसके बिना वाक्य बिलकुल वैसा ही है जैसा खाने में अचार या चटनी ना हो तो। बिलकुल फीका। पर इनका प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। यह lesson आपको exams में भी मदद करेगा।

अब जब हम अपनी अगली **class** में मिलेंगे तो जानेंगे **tenses** का बारे में।

अगली कुछ **classes** आपके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण होने वाली है इसलिए उन्हें **miss** मत कीजियेगा।